

Issue of bus-chassis

254. SHRI SHIVENDRA BAHADUR SINGH): Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state how many bus chassis have been given in New Delhi as compared to the unemployed graduates or Adivasi and Harijans who are asking for bus chassis in rural sector of Madhya Pradesh, Bihar, Orissa and Uttar Pradesh;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): Distribution of chassis to the general public and private organisations in Delhi as compared to the distribution in Madhya Pradesh, Bihar, Orissa and Uttar Pradesh for the same category, as reported by the principal manufacturers, is given below:—

	Delhi	Madhya Pradesh	Bihar	Orissa	Uttar Pradesh
1978-79	284	196	269	116	283
1979-80	137	185	233	106	404

The manufacturers have reported that they are not maintaining details of chassis distribution communitywise.

Separate department for welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

255. SHRI LAKSHMAN MALLICK: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to establish an independent Department in the Ministry of Home Affairs to look after the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(b) if so, the details in this regard; and

(c) the time by which the proposed department is likely to be established?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) to (c). No decision has yet been taken.

जवानों तथा अधिकारियों के लिये नई वर्दी

256. श्री दीलत राम सारण :

श्री आर० एन० राकेश :

श्री राम प्यारे पनिका :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं के जवानों तथा अधिकारियों के लिए नई तथा मुविधाजनक वर्दी का डिजाइन तैयार किया गया है और क्या नई वर्दी का डिजाइन और चयन 1978 में जनरल सेथना की अध्यक्षता के अन्तर्गत गठित समिति की सिफारिशों के अनुरूप है ;

(ख) समिति द्वारा वर्दी के बारे में मुख्य सिफारिशें क्या हैं और समिति ने अपना प्रतिवेदन कब तक दिया तथा सरकार द्वारा कौन सी सिफारिशें स्वीकार की गईं ;

(ग) नई वर्दी की आवश्यकता किन कारणों से महसूस की गई तथा नई वर्दी की विशेषताएं क्या हैं तथा उनके चयन की कसौटी क्या है ; और

(घ) इस नई वर्दी को लागू करने पर कितना अतिरिक्त खर्चा हुआ है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वो० पाटिल) : (क) जी हाँ।

(ख) पोशाक समिति ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1979 में रक्षा मंत्रालय को दे दी थी और राजनीतिक मामलों से सम्बन्धित मंत्रीमण्डल समिति ने विस्तृत परीक्षण के बाद जनवरी, 1981 में इसे अन्तिम रूप से अनुमोदित कर दिया। वर्दी समिति की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं ;

(ग) नई प्रकार की वर्दी की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई क्योंकि वर्तमान वर्दी सेनाओं की संचालन सम्बन्धी विविध अ

श्रयकताओं को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाती थी उसका रख-रखाव और अनुरक्षण भी सरल नहीं था। नई वर्दों की विशेषताएं और उसके चयन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

- (1) इससे सैनिकों की कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी।
- (2) इसमें अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग वर्दियों का प्रावधान होगा ; और
- (3) इसके रख रखाव में आसानी रहेगी।

विवरण

वर्दों के संबंध में पोशाक समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें जो नवम्बर, 1979 में रक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत की गई इस प्रकार हैं :—

(क) इस समय वर्दों की 13 मर्दानों के स्थान पर जो दस नई मर्दानों की गई हैं वे इस प्रकार हैं :—

चालू की जाने वाली प्रस्तावित नई मर्दानों	पात्रता	समान सूची से निकाली जाने वाली वर्तमान मर्दानों	पात्रता
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
(1) (कक) यो डी जैकेट (यह उनके लिए है जिन्हें इस समय एक अथवा शून्य ओवर आल कम्बीनेशन प्राधिकृत है)	2	(1) (कक) कमीज सी सी ओ जी	2
(खख) यो डी जैकेट (उनके लिए जिन्हें इस समय 2 ओवरआल कंबीनेशन प्राधिकृत है)।	1	(खख) कमीज सी सी खाकी	2
(2) (कक) यो डी पैट (उनके लिए जिन्हें इस समय 1 अथवा शून्य ओवरआल कम्बीनेशन प्राधिकृत है)	2	(2) (कक) खाकी ड्रिल पैट	2
(खख) यो डी पैट (उनके लिए जिन्हें इस समय दो ओवर आल कम्बीनेशन प्राधिकृत है)	1	(खख) ओ जी ड्रिल पैट	2

(क)	(ख)	(ग)	(घ)
(3) टेरीकोट की कमीज	2		
(4) टेरीकोट की पैट	2		
(5) टेरीवूल सूट	1 जोड़ा,	(3) ओ जी जर्सी पुलओवर	1
(6) ईनर लाइनर योद्धी जैकेट	1	(4) अंगोला ड्रेव कमीज	2
(7) पूरी बाजू की वेस्ट ऊनी ओ की	2	(5) टेंट बी डी सजं	1 1/2
		(6) मेट कोट शोट कंपलीट	1
		(7) आधी बाजू की वेस्ट ऊनी सफेद	2
(8) गोल गले की आधी बाजू वाला ओ जी सूती वेस्ट	2	(8) बिना बाजू की सफेद सूती वेस्ट	2
(9) ऊनी अंडर पैट (सर्दियों के दौरान यो डी पैट और टेरी-वूल की यो डी पैट के नीचे पहनने के लिए)	1	—	—
(10) टोपी एफ एस डिस्परप्टिव	1	(10) (कक) टोपी एफ एस ओ जी	1
		(खख) टोपी एफ एस खाकी	1
		(11) ऊनी स्कार्फ	1

नोट:—संशोधन यो डी जैकेट और एफ एस डिस्परप्टिव के होने पर ऊनी स्कार्फ की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) नई बर्दियों क्रमिक रूप से पांच साल की अवधि में दी जायेंगी।

शेष मदों को निर्धारित समय की समाप्ति पर वापस कर दिया जायेगा।

(ग) वस्त्रों के स्थान पर अन्य वस्त्र देने की प्रणाली जीवन चक्र धारणा पर आधारित होगी और शांति और युद्ध दोनों ही क्षेत्रों में मूफ्त दी जायेगी।

(ड) प्रति व्यक्ति प्रति माह 9 रुपए दिया जाने वाला वर्तमान वस्त्र भत्ता समाप्त कर दिया जायेगा और उसके स्थान पर उन्हें प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 15 रुपए का अनुरक्षण भत्ता दिया जाएगा।

(घ) दूधों की व्यक्तिगत वस्त्रों की प्रस्तावित दस नई मदें अपने पाम रखेंगे और

(च) सूची में से 9 मदों को हटा दिया जायेगा और नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार

6 मर्दों को 'वन टाइम इन्' के रूप में दिया जायेगा :—

(1) त्तुबो में वे हटाये जाते वाली मर्दों

(कक) मावुनदानी

(खख) कंधी

(गग) कंधा मार्क II

(घघ) मूर्ई धागा थैली

(ङङ) जूनियर कमीशन अफमर्दों के रैंक के बैज

(चच) टिन ब्लान्म कण्टेनर

(छछ) टिन डबिन प्रोटक्टिव

(जज) खटकेदार चाकू

(झझ) दोरी वाला खटकेदार चाकू ओ जी

(2) एक बाँ दिए जाने वाले सम्प्रो

(कक) कंधे पर लगाने के टाइटिल ओ जी

(खख) टोपी/पगड़ी बैज

(गग) पहचान डिस्क

(घघ) पहचान कोर्ड डिस्क

(ङङ) डेजर्ट स्पून

(चच) बैकिंग वेगेच बैज

(छ) नई बर्तियों के रूप में प्रयोग की जाने वाली वस्त्रों की अतिरिक्त मर्दों का छठी योजना के लिए पहिले ही अनुमोदन कर दिया गया है।

Police-Naxalite Clashes

257. SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of incidents of clashes between the police and the so-called Naxalites that have taken place in 1980;

(b) the reasons for these clashes;

(c) whether there are any instances in which the Naxalites had attacked the innocent people anywhere;

(d) the reasons for the growth of Naxalite activities in the country;

(e) whether Government propose to appoint a Committee consisting of members belonging to the various recognised groups in Parliament to go into the actual state of affairs regarding the reported clashes between the Naxalites and the Police; and

(f) whether Government propose to call the leaders of the various Naxalite groups to discuss the various national and socio-economic issues?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA):

(a) to (d): Information is being collected from the State Governments and Union Territory Administrations and will be laid on the Table of the House.

(e) and (f). No such proposals are under consideration of Government.

Demand for enumeration on basis of dialects by ex-criminal and nomadic tribes

258. SHRI UTTAM RATHOD: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the ex-criminal and nomadic tribes have been demanding the enumeration on the basis of their dialects during Census Operations;

(b) whether the Maharashtra Government have written to the Registrar, Census Operations and Home Department to take up this work and that they would be at their cost; and

(c) if so, what action has been taken by the Home Department in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA):

(a) Requests had been received for the enumeration of ex-criminal and